

संलग्नक - 17/1-5

संलग्नक

**माडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन-श्रावस्ती**  
**मुख्यालय:भिचवा**

फोन नं. 43-2006-2007

अध्यक्ष  
**दिनेश कुमार शुक्ल 'एडवोकेट'**

फोन-9415571850

महामंत्री

**अतपेश कुमार 'एडवोकेट'**

फोन-9454307045

सीनियर पंडित

फोन- 97100000

सचिव

फोन- 9797010001

उपसचिव

फोन- 9415119431

वरिष्ठ पंडित

फोन- 9415119431

परामर्श

फोन- 9415119431

उपपरामर्श

फोन- 9415119431

उपउपसचिव

फोन- 9415119431

उपउपसचिव

फोन- 9415119431

उपउपसचिव

फोन- 9415119431

उपउपसचिव

फोन- 9415119431

उपउपसचिव

फोन- 9415119431

उपउपसचिव

फोन- 9415119431

उपउपसचिव

फोन- 9415119431

उपउपसचिव

फोन- 9415119431

उपउपसचिव

फोन- 9415119431

उपउपसचिव

फोन- 9415119431

उपउपसचिव

फोन- 9415119431

उपउपसचिव

फोन- 9415119431

उपउपसचिव

फोन- 9415119431

उपउपसचिव

फोन- 9415119431

उपउपसचिव

फोन- 9415119431

उपउपसचिव

फोन- 9415119431

फोन नं. 619

दिनांक 17.11.2019

**श्रीमान मुख्य न्यायमूर्ति महोदय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद**

विषय-जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती द्वारा विधिविरुद्ध एवं अनियमित रूप से किये जा रहे न्यायिक कार्य एवं अपने व्यक्ति विशेष को लाभ प्रमुखाने के उद्देश्य से जमानत प्रार्थनापत्र में विधिविरुद्ध आदेश पारित करने से रोके जाने हेतु एवं जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती के न्यायिक कार्य पर रोक लगाये जाने एवं जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा जनपद श्रावस्ती में नियुक्ति से लेकर अब तक समस्त जमानत प्रार्थनापत्र पर पारित आदेशों व अपील/रिवीजन में पारित आदेशों की तथा उनके कारगजारी एवं कार्यव्यवहार की सतर्कता आयोग द्वारा जांच कराये जाने के सम्यन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि वर्तमान समय में जनपद श्रावस्ती में नियुक्त जनपद न्यायाधीश के पद पर श्री मृदुलेश कुमार सिंह जब से आये हैं तब से इनका कार्यव्यवहार एवं आचरण अधिवक्ताओं के प्रति ठीक नहीं रहा है। जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती के विरुद्ध कई बार अधिवक्ताओं द्वारा शिकायत तथा लिखित रूप से दिनांक 22.11.2019 को संघ को अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में नियुक्त जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती की न्यायिक प्रक्रिया एवं कदाचार से जनपद श्रावस्ती के अधिवक्तागण काफी क्षुब्ध हैं। जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा न्यायालय पर मुकदमों की सुनवायी का कोई समय निश्चित नहीं है तथा देर शाम तक मदकारियों एवं अधिवक्ताओं को परेशान करने की नीयत से बैठायें रखा जाता है तथा लम्बी प्रतीक्षा के बाद अतंतोगत्वा तारीख बिना सुनवायी के दे दी जाती है। उपरोक्त कारणों से अधिवक्तागण क्षुब्ध हैं इस परिप्रेक्ष्य में 69 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रत्यावेदन संघ कार्यालय में दिया गया है जिस पर कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 23.11.2019 को बुलाई गयी जिस पर कार्यकारिणी के अधिकांश सदस्यों द्वारा राय व्यक्त की गयी कि प्रश्नगत प्रकरण 69 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित है- तथा प्रकरण गम्भीर प्रकृति का है इसलिए इस प्रत्यावेदन को सामान्य सभा की बैठक में विचार हेतु रखा जाय। कार्यकारिणी के सदस्यों की राय के अनुसार दिनांक 26.11.2019 को



# माडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन-श्रावस्ती

## मुख्यालय:भिन्ना

एजीपी संख्या:43-2006-2007

अध्यक्ष  
**दिनेश कुमार शुक्ल 'एडवोकेट'**  
मो-9415571850

महामंत्री  
**अवधेश कुमार 'एडवोकेट'**  
मो-9454307045

- वरिष्ठ एडवोकेट  
**दीनेश कुमार शुक्ल 'एडवोकेट'**  
मो- 9721020009
- सचिव पदवी  
**प्राणानंद**  
आचार्यजी मिश्र 'एडवोकेट'  
मो- 8787010661
- प्रशासन  
**अशोक महापात्रा मिश्र 'एडवोकेट'**  
मो- 9410779434
- पुरोकारण  
**सतीश कुमार मिश्री 'एडवोकेट'**  
मो- 8052311254
- मुख्य एडवोकेट  
**राजीव शर्मा 'एडवोकेट'**  
मो- 9415192325
- कमलेश प्रसाद मिश्रा 'एडवोकेट'  
मो- 6394419717
- सुनिष्ठ एडवोकेट  
**अभिनव मिश्रा 'एडवोकेट'**  
मो- 9670334376
- कारोवर कल्याण वर्मा 'एडवोकेट'  
मो- 9196607097
- कायमल  
**रवि शंकर पाठक 'एडवोकेट'**  
मो- 9005187996
- वरिष्ठ सदस्य  
**अरुण अहमद 'एडवोकेट'**  
मो- 9415491361
- धर्मराज पाठक 'एडवोकेट'  
मो- 9161413375
- मानम लाल मिश्रा 'एडवोकेट'  
मो- 9450747119
- सदानंद 'एडवोकेट'  
मो- 9369127530
- विजय कुमार पाण्डेय 'एडवोकेट'  
मो- 9961834001
- मो अरुण 'एडवोकेट'  
मो- 9415491366
- सुनिष्ठ सदस्य  
**अजय कुमार मिश्र 'एडवोकेट'**  
मो- 9433460087
- गणेश जी वर्मा 'एडवोकेट'  
मो- 8175831386
- दिवान कुमार पाठक 'एडवोकेट'  
मो- 9721566344
- अरुण कुमार शुक्ल 'एडवोकेट'  
मो- 99185 62732
- मो आशिष 'एडवोकेट'  
मो- 9662321119
- मो अरुण 'एडवोकेट'  
मो- 9433460087
- पवन शर्मा  
**सुनील शर्मा 'एडवोकेट'**  
मो- 9433460081
- दिनेश कुमार मिश्रा 'एडवोकेट'  
मो- 9450600608

पत्रांक..... दिनांक.....

आमसभा की बैठक बुलाई गयी किन्तु कोरम पूरा न होने के कारण दिनांक 26.11.2019 की बैठक को स्थगित कर दिया गया और दिनांक 30.11.2019 को पुनः सामान्य सभा की बैठक बुलाई गयी जिस पर सामान्य सभा द्वारा बट निर्णय लिया गया कि संघ के अध्यक्ष महोदय प्रतिनिधि मंडल के साथ जनपद न्यायाधीश महोदय से मिलकर समस्या से अवगत करावे और उसके बाद भी यदि जनपद न्यायाधीश के कार्यव्यवहार एवं आचरण में कोई सुधार नहीं होता है तो पुनः सामान्य सभा की बैठक बुलाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।

सामान्य सभा के धारित उपरोक्त प्रस्ताव के अनुक्रम में दिनांक 04.12.2019 को माडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन द्वारा अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा जनपद न्यायाधीश महोदय से मुलाकात की गयी और संघ की तरफ से एक पत्र इस आशय का दिया गया कि जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती द्वारा की जा रही न्यायिक प्रक्रिया व कदाचार से अधिवक्तागण क्षुब्ध हैं। जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती द्वारा सिविल और फौजदारी वादों की सुनवायी का कोई समय निश्चित नहीं है। तथा शायंकाल तक केवल फौजदारी वादों की ही सुनवायी की जाती है जिससे सिविल अपील/ रिवीजन की सुनवायी एवं निस्तारण समय से नहीं हो पा रहा है और सुनवायी न होने के कारण वादकारी व अधिवक्तागण निराश होकर अपने घर वापस चले जाते हैं।

जनपद श्रावस्ती एक पिछड़ा जिला है जहां आवागमन के कोई साधन नहीं हैं वादकारी एवं अधिवक्तागण को सुनसान जंगल के रास्ते से होकर घर जाना पड़ता है जिससे जानमाल का खतरा बना रहता है।

जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण सुनवायी के दूसरे तीसरे दिन होता है और जिन मुकदमों में सुनवायी कर ली जाती है उसे काफी समय तक लम्बित रखा जाता है इस कारण अधिवक्तागण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।



# माडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन-श्रावस्ती

मुख्यालय: भिनगा

आयश

पंजीवन संख्या: 43-2006-2007

दिनेश कुमार शुक्ल 'एडवोकेट'

महामंत्री

मो०-9415571850

अवधेश कुमार 'एडवोकेट'

मो०-9454307645

- | नाम                             | पता | दिनांक |
|---------------------------------|-----|--------|
| वीरेंद्र कुमार शर्मा 'एडवोकेट'  |     |        |
| मो०- 8721020089                 |     |        |
| संजय मन्नी                      |     |        |
| प्रधान                          |     |        |
| आशुतोष मिश्र 'एडवोकेट'          |     |        |
| मो०- 8787010661                 |     |        |
| प्रधान                          |     |        |
| ओम नरसिंह मिश्र 'एडवोकेट'       |     |        |
| मो०- 9456789414                 |     |        |
| पुस्तकालय                       |     |        |
| रंजित कुमार शिवाजी 'एडवोकेट'    |     |        |
| मो०- 8032311254                 |     |        |
| सत्य उपासक                      |     |        |
| राजीव शर्मा 'एडवोकेट'           |     |        |
| मो०- 8415192325                 |     |        |
| कमला प्रसाद मिश्रा 'एडवोकेट'    |     |        |
| मो०- 8394319717                 |     |        |
| कनिष्ठ उपासक                    |     |        |
| अशोक मिश्रा 'एडवोकेट'           |     |        |
| मो०- 9670334376                 |     |        |
| कमलेश्वर शर्मा 'एडवोकेट'        |     |        |
| मो०- 9198607897                 |     |        |
| कोषाध्यक्ष                      |     |        |
| रवि शर्मा 'एडवोकेट'             |     |        |
| मो०- 9005187096                 |     |        |
| वरिष्ठ सदस्य                    |     |        |
| अरवि आर्या 'एडवोकेट'            |     |        |
| मो०- 9415491361                 |     |        |
| भारतज पाठक 'एडवोकेट'            |     |        |
| मो०- 9161413275                 |     |        |
| महान्यायक 'एडवोकेट'             |     |        |
| मो०- 9450747649                 |     |        |
| सदान्वय 'एडवोकेट'               |     |        |
| मो०- 9369127530                 |     |        |
| विजय कुमार पाण्डेय 'एडवोकेट'    |     |        |
| मो०- 9461834001                 |     |        |
| मो० अरवि 'एडवोकेट'              |     |        |
| मो०- 9415491366                 |     |        |
| कनिष्ठ सदस्य                    |     |        |
| अजय कुमार मिश्र 'एडवोकेट'       |     |        |
| मो०- 9412560087                 |     |        |
| जयेश जी शर्मा 'एडवोकेट'         |     |        |
| मो०- 8175851386                 |     |        |
| विकास कुमार नायक 'एडवोकेट'      |     |        |
| मो०- 9721586344                 |     |        |
| अशोक कुमार शुक्ल 'एडवोकेट'      |     |        |
| मो०- 9918947732                 |     |        |
| मो० आशिष 'एडवोकेट'              |     |        |
| मो०- 9487621119                 |     |        |
| मो० अरवि 'एडवोकेट'              |     |        |
| मो०- 9450927575                 |     |        |
| पवन सदस्य                       |     |        |
| धुली शर्मा 'एडवोकेट'            |     |        |
| मो०- 7800993041                 |     |        |
| वीरेंद्र कुमार शिवाजी 'एडवोकेट' |     |        |
| मो०- 9450400008                 |     |        |

कार्यवाही ही की गयी और राय को अब तक सूचित भी नहीं किया गया है कि इस प्रकरण पर क्या कार्यवाही हो रही है। श्रीमान जी द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने पर जनपद न्यायाधीश का मनोबल और भी बढ़ गया है और ये भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हो गये हैं।

इसी क्रम में पुनः सहूल तिवारी एडवोकेट द्वारा मा० डिस्ट्रिक्ट बार एसो० श्रावस्ती को दिनांक 08.06.2020 को इस आशय का प्रार्थनापत्र दिया गया कि जमानत आदेशन पत्र सं० 115/2020 मुण्डे बनाम राज्य अ० सं० 131/2020 धारा 379/411 भा० द० संहिता थाना को० भिनगा मा० जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्तीके न्यायालय पर प्रस्तुत किया था जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 04.06.2020 नियतांथा जिस पर उस दिन साढ़े पांच गजे तक कोई तिथि निर्धारित नहीं की गयी और न ही किसी माध्यम से अधिवक्ता को अगली तिथि के बारे में सूचना दी गयी तथा दिनांक 06.06.2020 को बिना अधिवक्ता को सुने ही विद्वेषपूर्ण भावना से प्रेरित होकर जमानत प्रा०पत्र पर लिखा गया कि उभयपक्षों को सुना गया। और जमानत प्रार्थनापत्र अपराध गम्भीर प्रकृति का है यह लिखते हुए निरस्त कर दिया गया जबकि जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती द्वारा व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संज्ञेय से संज्ञेय अपराधों में अपने घटते अधिवक्ताओं को जमानत प्रदान की जाती है। प्रार्थी के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए उक्त कृत्य किया गया है जिसकी जांच होना व आवश्यक कार्यवाही होना न्यायहित में आवश्यक है जिससे न्यायालय का जनता में गरिमा एवं विश्वास बना रहे। उपरोक्त प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में दिनांक 09.06.2020 को कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गयी जिसमें कार्यकारिणी के सदस्यों ने एकराय होकर प्रार्थनापत्र पर कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित किया कि जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती का कार्यव्यवहार ठीक नहीं है भ्रष्टाचार में लिप्त होकर अपने खास अधिवक्ताओं को अनुचित तरीके से जमानत आदेश पारित करना और व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने और अन्य अधिवक्ताओं के जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त करने के सम्बन्ध में जनपद न्यायाधीश श्रावस्ती को उनके कार्यकाल के दौरान पारित समस्त आदेशों की सतर्कता आयोग द्वारा



# माडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन-श्रावस्ती

## मुख्यालय: भिनागा

पंजीयन संख्या: 43-2006-2007

अध्यक्ष

**दिनेश कुमार शुक्ल 'एडवोकेट'**

मो०-9415571850

महामंत्री

**अवधेश कुमार 'एडवोकेट'**

मो०-9454307045

- हरिश्चंद्र उपाध्यक्ष  
दीनेश कुमार शुक्ल 'एडवोकेट'  
मो०- 9711020069  
सयुक्त पत्नी  
प्रशासन  
आणुतोष मिश्र 'एडवोकेट'  
मो०- 8787010661  
प्रकारान  
ओम नारायण मिश्र 'एडवोकेट'  
मो०- 9210749434  
पुस्तकालय
- रतिलाल कुमार सिवासे 'एडवोकेट'  
मो०- 8652311254  
भय उपाध्यक्ष  
रजनीश उपाध्यक्ष 'एडवोकेट'  
मो०- 9415192325
- कमलेश प्रकाश मिश्रा 'एडवोकेट'  
मो०- 824419717  
जनित उपाध्यक्ष  
अश्विनेश मिश्रा 'एडवोकेट'  
मो०- 9170331376
- मो०- 9198602197  
कोषाध्यक्ष  
रवि शंकर पांडे 'एडवोकेट'  
मो०- 9005167096  
परिचय सदस्य  
अरुण आर. शर्मा 'एडवोकेट'  
मो०- 9415491361
- मो०- 9161413375  
मो०- 8650747669  
मो०- 9309127530
- विजय कुमार पाण्डेय 'एडवोकेट'  
मो०- 9961834001  
मो०- 9415191386  
जनित सदस्य  
अजय कुमार मिश्र 'एडवोकेट'  
मो०- 9452460087
- मो०- 8173851386
- मो०- 9721506344
- मो०- 9918947732  
मो०- 9448732119  
मो०- 9450937979
- पदेन सदस्य  
पुष्पती उपाध्यक्ष 'एडवोकेट'  
मो०- 750093941
- मो०- 9450460089

पत्रांक.....

दिनांक.....

जांच करायी जाय एवं जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती के द्वारा न्यायिक कार्य में की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमान जी एवं अन्य सम्बन्धित उच्च अधिकारीगण को पत्र लिखा जाय जिससे अधिवक्ताओं एवं आमजनता का न्यायपालिका के प्रति विश्वास बना रहे।

श्रीमान जी को यह भी अवगत कराना है कि भा० जनपद

न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती द्वारा 302/304बी/306/307/308/419/420/467/468/471 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों में एवं 302 में दर्ज अज्ञात अभियुक्त को प्रकाश में आने के बावजूद दोहरे मापदंड अपनाकर अपने व्यक्ति विशेष अधिवक्ता को लाभ देने के उद्देश्य से समस्त कार्य उन्ही अधिवक्ता के पास सीमित हो जाये इसी उद्देश्य से दोहरे मापदण्डों के आधार पर जमानत पर आदेश अनुचित लाभ लेकर पारित किये जा रहे और उन्ही अधिवक्ता को चेम्बर में बैठकर उन्ही के आवेदन/ जमानत प्रा०पत्रों के निस्तारण में सहयोग लिया जाता है। 308 भा०द०संहिता के मुकदमा में अपने इच्छित अधिवक्ता को समान आरोप में जमानत दे देते हैं और अन्य अधिवक्ताओं द्वारा उसी अपराध में जमानत प्रा०पत्र निरस्त कर देते हैं। इसी प्रकार 302 भा०द०संहिता में आला कल्ल की बरामदगी बमुकदमा भीखू बनाम राज्य में जमानत दे दी गयी और राजकुमार मिश्र बनाम राज्य के मुकदमा में कोई भी साक्ष्य न होने के बावजूद भी जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार तमाम मुकदमों की लम्बी सूची है जो बाद जांच स्पष्ट हो जायेगा।

यह प्रकरण अत्यंत गम्भीर प्रकृति का है इसलिए उक्त प्रकरण पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए निम्नलिखित कार्यवाही करने की मांग माडल डिस्ट्रिक्ट बार एसो० श्रावस्ती द्वारा की जाती है:-

—यह कि जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती के समस्त न्यायिक कार्य पर तत्काल रोक लगाया जाय जिससे अधिवक्ताओं को ब्रह्मचार से मुक्ति मिल सके।



# माडल डिस्ट्रिक्ट हार एसोसिएशन-श्रावस्ती

मुख्यालय: भिन्नगा

संस्थापक

दिनांक: 17.06.2020

दिनेश कुमार शुक्ल 'संस्थापक'

पदाध्यक्ष

अशोक कुमार 'संस्थापक'

मो-9475571800

मो-9474307049

शशि कुमारी 'संस्थापक'

सचिव

सचिव

मो-9475571800

2-यह कि जनपद न्यायधीन महोदय श्रावस्ती के जनपद श्रावस्ती में कार्यभार ग्रहण करने से अब तक समस्त प्रमाना प्रमाणपत्रों का अर्थ आदेश / निर्णय की प्रतीति प्रदान करने के माध्यम से कार्य जारी।

सुजाता 'संस्थापक'

मो-9475571800

सुजाता 'संस्थापक'

मो-9475571800

सुजाता 'संस्थापक'

मो-9475571800

सुजाता 'संस्थापक'

मो-9475571800

सुजाता 'संस्थापक'

मो-9475571800

सुजाता 'संस्थापक'

मो-9475571800

सुजाता 'संस्थापक'

मो-9475571800

सुजाता 'संस्थापक'

मो-9475571800

सुजाता 'संस्थापक'

मो-9475571800

सुजाता 'संस्थापक'

मो-9475571800

सुजाता 'संस्थापक'

मो-9475571800

सुजाता 'संस्थापक'

मो-9475571800

सुजाता 'संस्थापक'

मो-9475571800

सुजाता 'संस्थापक'

मो-9475571800

सुजाता 'संस्थापक'

मो-9475571800

सुजाता 'संस्थापक'

मो-9475571800

सुजाता 'संस्थापक'

मो-9475571800

सुजाता 'संस्थापक'

मो-9475571800

सुजाता 'संस्थापक'

मो-9475571800

3-जनपद न्यायधीन महोदय श्रावस्ती का स्थानान्तरण तत्काल किसी अन्य स्थान पर किया जाये।

इस घोषणा की यह निवेदन है कि प्रथमपत्र में उक्त श्रावस्ती के जनपद न्यायधीन महोदय श्रावस्ती के विपरीत प्रमाणपत्रों का अर्थ आदेश / निर्णय प्रदान करने के माध्यम से कार्य जारी किया जाये।

दिनांक 17.06.2020

सचिव

पदाध्यक्ष

माडल डिस्ट्रिक्ट हार एसोसिएशन  
श्रावस्ती।

17.06.2020